

## यूहन्ना क पहिली पत्र

1 इ दुनिया क सुरुआत स रहा:

हम एका सुने अही अपनी आंखन स देखे अही  
अउर बहुत धियान स निहारे, एका अपने हाथन  
स खुदइ अही छुए।

हम उ बचन (मसीह) क बावत बतावत अही जउन  
जीवन अहइ।<sup>2</sup>उही जीवन क ज्ञान हमका करावा गवा।  
हम ओका देखे अही। हम ओकर साच्छी अही अउर  
अब हम तोहका पचे क उही अनन्त जीवन क घोषणा  
करत अही जउन परमपिता क साथे रहा अउर जेकर  
जानकारी हमका कराई गइ।<sup>3</sup>हम ओका देखे अउर  
सुने अही। अब तोहका उही क उपदेस देत अही जइसेन  
कि तू हमार साथी रहा। हमार इ साथ परमपिता अउर  
ओनकइ पूत ईसू मसीह क साथे अहइ।<sup>4</sup>हम इ सब बात  
तोहरे बदे इ कारण स लिखत अही जइसेन कि तोहार  
आनन्द पूरा होइ जाइ।

### परमेस्सर हमरे पापन क छमा करत ह

<sup>5</sup>हम ईसू मसीह स जउन सुसमाचार सुनो अही, उही  
क हम तोहका सुनावत अही, परमेस्सर ज्योति अहइ  
अउर ओहमा तनिकउ अँधेरा नाहीं अहइ।<sup>6</sup>जदि हम  
कही कि ओके सहित हमार सहभागिता अहइ, अउर  
पाप क अँधियारे स भरा जीवन जिअत रही तउ हम झूठ  
बोलत अही अउर सच्चाई प आवरण नाहीं करत अही।  
<sup>7</sup>मुला जदि हम ज्योति में आगे बढ़ित अही काहेकि  
ज्योति में परमेस्सर अहइ, अउर एक दुसरे क सहभागी  
अही। अउर परमेस्सर क पूत ईसू क लहू स हमार सब  
पापन क सुद्ध कइ देत ह।

<sup>8</sup>जदि हम कहित ह कि हमरे में कउनो पाप नाहीं  
अहइ तउ हम खुदइ अपने आपका ठगत अही अउर  
हमसे परमेस्सर क सत्य नाहीं अहइ।<sup>9</sup>जदि हम आपन  
पाप क मान लेइत ह तउ हमरे पापन क परमेस्सर छमा  
कइ देत ह, परमेस्सर बिसवासनीय अहइ, अउर उ जउन  
करत ह उ उचित अहइ। अउर उ हमरे गलत कामन  
स सुद्ध कर देत ह।

<sup>10</sup>आगर हम कहित ह कि हम कउनो पाप नाहीं  
करे अही तउ हम परमेस्सर क झूठा बनावत अही  
अउर ओकर उपदेस हमरे में नाहीं अहइ।

### ईसू हमार सहायक अहइ

2 मोर पिआरे बच्चो, इ सब बात मई इ बदे लिखत  
अहउँ जइसे तू पचे पाप न करा। मुला जउ कउनो  
मनई पाप करत ह तउ परमेस्सर क सामने हमरे पाप  
क बचाव करइवाला एक अहइ अउर उ बाटइ न्यायी  
ईसू।<sup>2</sup>उ एक बलिवान आटइ जउन हमरे पापन क हर  
लेत ह, उ केवल हमरे पापन क नाहीं हरत उ तउ  
समूची दुनिया क पाप हर लेत ह।

<sup>3</sup>जदि हम परमेस्सर क हुकुम क पालन करित ह  
तउ इ उहइ रास्ता अहइ जउने स हम निस्चय करित ह  
कि हम सचमुच ओका जान लिहे अही।

<sup>4</sup>जदि कउनो कहत ह, “मई परमेस्सर क जानित  
हउँ!” अउर ओकर हुकुमन क पालन नाहीं करत तउ  
उ झूठा अहइ। ओकरे मन में सच्चाई नाहीं अहइ।<sup>5</sup>मुला  
जउ कउनो मनई परमेस्सर क उपदेस क पालन करत  
ह तउ ओहमाँ परमेस्सर क पिरेंम आपन पूर्णता क  
पावत ह इहइ उ रास्ता अहइ जउने स इ निस्चय होत ह  
कि हम परमेस्सर में अही।<sup>6</sup>जउन इ कहत ह कि उ  
परमेस्सर में बाटइ, ओका अइसा चलइ चाही जइसन ईसू  
चलत रहा।

### सबसे पिरेंम कर

<sup>7</sup>पिआरे बन्धुअन, मई तोहका कउनो नई हुकुमन  
नाहीं लिखत अहउँ, इ तउ एक सनातनी हुकुम अहइ,  
जउन तोहका सुरुआतइ में दइ दीन्ह गइ रही। इ पुरानी  
हुकुम उ उपदेस अहइ जेका तू सुन चुका अहा।<sup>8</sup>मई  
तोहका अउर दुसर नया हुकुम लिखत अहउँ। इ बात  
की सच्चाई ईसू क जीवन में अउर तोहरे जिन्दगी में  
उजागर भइ अहइ, काहेकि अँधियारा खतम होत अहइ  
अउर ज्योति चमकत अहइ।

<sup>9</sup>जउन मनई कहत ह, “उ ज्योति में स्थित अहउँ।”  
अउर तबहूँ अपने भाई स नफरत करत ह, तउ उ  
अबहिँ भी उ अंधेरे में बना अहइ।<sup>10</sup>जउन अपने भाई स  
पिरेंम करत ह, ज्योति में बना रहत ह। ओकरे जिन्दगी  
में अइसी कउनो चीज नाहीं अहइ, जउने स उ ठोकर  
खाइ।<sup>11</sup>मुला जउन मनई अपने भाई स नफरत करत  
ह, उ अंधेरे में अहइ। उ अंधेरे स भरा जीवन जिअत  
अहइ। ओका पता नाहीं अहइ कि उ कहाँ जात अहइ,  
काहेकि अंधेरा ओका आंधर बनाइ दिहे अहइ।

12 पिआरे बच्चो, मई तोहका इ बदे लिखत अहउँ, काहेकि ईसू मसीह क कारण तोहरे पापन क छमा कइ दीन्ह गवा अहइ।

13 पिताओ, मई तोहका इ बदे लिखत अहउँ, काहेकि तू पचे, जउन अनादि काल स बना अहइ, ओका जानत हया। जवानो! मई तोहका इ बदे लिखत अहउँ, काहेकि तू उ दुस्ट (सइतान) प जीत हासिल कइ लिह्या ह।<sup>14</sup>बच्चो, मई तोहका इ बदे लिखत अहउँ, काहेकि तू अपने बाप क पहचान लिहे अहा। ओह बाप लोगो, मई तोहका इ बदे लिखत अहउँ, काहेकि तू जउन कि संसार क सुरुआतइ स बना अहा, ओका जान लिहे अहा। जवानो, मई तोहका इ बदे लिखत अही, काहेकि तू ताकतवर अहा। परमेस्सर क बचन तोहरे अन्दर निवास करत हअउर उ दुस्ट (सइतान) पइ जीत हासिल कइ लिये अहा।

<sup>15</sup>दुनिया स अउर दुनिया क तमाम चीजन स पिरेम जिन करा। जउ कउनो मनई दुनिया स पिरेम करत ह तउ ओनके हिरदइ मँ परमेस्सर कइँती पिरेम नाहीं रहत,<sup>16</sup>काहेकि इ दुनिया क हर चीज:

जउन तोहरे भौतिक मनई सुभाउ क अपनी अउर खीचत ह, तोहरी आँखिन क सोहात अउर इ दुनिया क हर उ चीज जउने प लोग घमंड करत हीं।

परमपिता कइँती स नाहीं अहइ मुला उ तउ सांसारिक अहइ।<sup>17</sup>इ दुनिया अपनी चाहत अउर इच्छा सहित खतम होत जात अहइ, मुला जउन मनई परमेस्सर क इच्छा क पालन करत ह, उ हमेसा रहत ह।

### मसीह क विरोधिअन क कहा न माना

<sup>18</sup>मारे पिआरे बच्चो, आखिरी घड़ी आइ गइ अहइ जइसेन कि तू पचे सुने अहा, मसीह क विरोधी आवत अहइ। इ बदे अब मसीह क तमाम विरोधी प्रकट होइ गवा अहइ इही बदे हम जानत अही कि आखिरी वक्त आइ ग अहइ।<sup>19</sup>मसीह क विरोधी हमरेन सबके बीच स निकरा अहइ, मुला उ सबइ सही सही हमार सबन क न अहीं, काहेकि जदि उ पचे सचमुच हमार सबन क होतेन, तउ हमरे सबके साथे रहतेन। मुला उ पचे हम सबक छोड़ दिहेन, जइसन कि उ दिखाइ सकइँ कि उ हमार सबक न अहीं।

<sup>20</sup>मुला तोहार अभिसेक तो उस पवित्तर स भवा ह, अउर तू सब जानत ह्या।<sup>21</sup>मई तोहका इ बदे नाहीं लिखे अहउँ कि तू पचे सच्चाई क नाहीं जानत अहा,

मुला तू पचे तउ ओका जानत अहा। एका जना ल्या कि सच्चाई स कउनो झूठ नाहीं निकर सकत।

<sup>22</sup>मुला जउन मनई कहत ह कि ईसू मसीह नाहीं अहइ, उ मसीह क विरोधी अहइ। उ तउ बाप अउर बेटवा दुइनउ क नकार देत अहइ।<sup>23</sup>जउन मनई बेटवा क नाहीं मानत, ओकरे पास बापउ नाहीं अहइ, मुला जउन मनई बेटवा क मानत ह, उ बापउ क मानत ह।

<sup>24</sup>जहाँ तलक तोहार बात अहइ, तू सुरुआतइ स जउन सुने अहा, ओका अपने भीतर बनाए राखा। जउन तू आरम्भ स सुने अहा, जउ तोहरे अन्दर बरकरार रहत ह तउ बाप अउर बेटवा दुइनउँ तोहरे अन्दर बरकरार रहत हीं।<sup>25</sup>उ हमका अनन्त जीवन देइ क वचन दिहे अहइ।

<sup>26</sup>मई इ सब बात तोहसे ओनके बावत लिखत अहउँ, जउन तोहका ठगइ क जतन करत अहइ।<sup>27</sup>मुला जहाँ तक तोहार बात अहइ, तोहरे मँ तउ उ परम पवित्तर स मिला अभिसेक अहइ, इ बदे तोहका तउ तू जरूरतइ नाहीं अहइ कि कउनो तोहका उपदेस देइ, तोहका तउ उ आत्मा जउने स उ परम पवित्तर तोहार अभिसेक करे अहइ, सब कछू सिखावत अहइ (अउर याद रखा कि, उहइ सच्चाई आटइ, उ झूठ नाहीं आटइ।) उ तोहका जइसे सिखाए अहइ, वइसेन तू मसीह मँ बना रहा।

<sup>28</sup>इ बदे पिआरे बच्चो, उही मँ बना रहा जइसेन कि जब हमका ओकर जानकारी होइ तउ हम आत्मा-बिसवास पाइ सकउँ। अउर ओकरे फिन स आवइ क वक्त हमका लज्जित न होइ क पड़इ।<sup>29</sup>जदि तू इ जानत अहा कि उ नेक अहइ तउ तू इहइ जान ल्या कि जउन नेकी प चलत ह उ परमेस्सर क सन्तान अहइ।

### हम परमेस्सर क सन्तान अही

**3** इ सोचिके देखा कि परमपिता हमका केतँना पिरेम करत ह जइसेन कि हम पचे बेटी-बेटवा कहवावा जाइ सकी अउर वास्तव मँ उ हमहि सब अही। इही बदे दुनिया हमका नाहीं पहिचानत, काहेकि उ मसीह क नाहीं पहिचानत।<sup>2</sup>पिआरे बन्धुअन, अब हम परमेस्सर क सन्तान अही, मुला आगे चलिके हम सब का होबै, एकर जानकारी हमका नाहीं कराई गइ अहइ। जउन कछू होइ, हम इ जानित अही कि मसीह क फिन परगत होइ प हम पचे उही क तरह होइ जाब, काहेकि उ जइसेन अहइ, हम ओका उही तरह देखब।<sup>3</sup>जउन मनई ओसे अइसी उम्मीद रखत अहइ, उ खुदक वइसे पवित्तर करत ह जइसे मसीह पवित्तर अहइ।

<sup>4</sup>जउन मनई पाप करत ह, उ परमेस्सर क नियम क तोड़त ह, काहेकि नियम क तोड़ब पाप आटइ।<sup>5</sup>तू तउ जानत अहा कि मसीह सब मनइयन क पाप क नास करइ क वास्ते प्रकट भवा अहइ। अउर इहउ बात

जानत अहा कि ओहमौ कउनो पाप नाही अहइ। <sup>6</sup>जउन मनई मसीह मँ रहत हीं पाप मँ नाहीं रहतेन अउर जउन मनई पाप करत हीं, उ न तउ ओकर दर्सन करे अहइ, अउर न तउ कबहूँ ओका जाने अहइ।

<sup>7</sup>पिआरे बच्चों, तू कतहूँ ठगा न जा। जउन मनई धरम क पालन करत ह ओका धरमात्मा कहा जात ह। जइसेन कि मसीह धरमात्मा अहइ। <sup>8</sup>जउन मनई हमेसा पाप करत रहत ह, उ सइतान क अहइ काहेकि सइतान अनादिकाल स पाप करत चलत आवत अहइ। इही बदे परमेस्सर क पूत (मसीह) परगट भवा जइसेन कि उ सइतान क काम क नास कइ देइ।

<sup>9</sup>जउन मनई परमेस्सर क बेटवा बन गवा, पाप मँ नाहीं रहत, काहेकि ओकर बीज तउ उही मँ रहत ह। अब उ पाप नाहीं करत काहेकि वह परमेस्सर क बेटवा बन चुका अहइ। <sup>10</sup>परमेस्सर क सन्तान कउन अहइ? अउर सइतान क बेटवन कउन अहइ? तू ओनका इ तरीके स जान सकत हया कि जउन मनई धरम प नाहीं चलत अउर अपने भाई स पिरेम नाहीं करत, उ परमेस्सर क बचवा न अहइ।

### एक दूसरे क साथ पिरेम स रहा

<sup>11</sup>इ उपदेस तउ तू सुरुआति स सुने अहा कि हमका सबका एक दूसरे स पिरेम करइ चाहीं। <sup>12</sup>हमका पचे क कैन\* क तरह न बनइ चाहीं जउने क सम्बन्ध दुष्ट आतिमा स रहा अउर जे अपने भाई क हतिया कइ दिहे रहा। अब बतावा कि उ अपने भाई क काहे मार डाएस? उ अइसा इ बदे करेस, काहेकि ओकर करम खराब रहेन जबकि ओकरे भाई क करम अच्छा रहेन।

<sup>13</sup>भाइयो तथा बहिनियो, जदि इ दुनिया तोहसे नफरत करत ह, तउ एहमौ अचरज करइ क बात नाहीं अहइ। <sup>14</sup>हमका पता अहइ कि हम मउत क पार जीवन मँ आइ पहुँचा अहइ। काहेकि हम अपने भाइयन स पिरेम करित अहीं। जउन मनई पिरेम नाहीं करत, उ मउत मँ बरकरार रहत ह। <sup>15</sup>जउन मनई अपने भाई स नफरत करत ह, उ हतियारा अहइ अउर तू जानत ही अहा कि जउन मनई हतियारा होत ह, उ अनन्त जीवन नाहीं रखत। <sup>16</sup>ईसू हमरे सबके खातिर आपन जीवन त्याग दिहेस। इही बदे कि हम जानित ह कि पिरेम का होत ह? हमका अपने भाइयन क बदे आपन प्रान निछावर कइ देइ चाहीं। <sup>17</sup>जेकरे लगे भौतिक सम्पति अहइ, अउर जे अपने भाइयन क दुःखी देखके ओकरे ऊपर दया नाहीं करत, ओहमा परमेस्सर क पिरेम अहइ, एका कइसे कहा जाइ सकत ह? <sup>18</sup>पिआरे बच्चों, हमार पिरेम केवल

कथन अउर बात तक न रहइ चाहीं, ओका करम कइके देखावइ चाहीं तथा पिरेम क सच्चा होइ चाहीं।

<sup>19-20</sup>इही स हम जान लेब कि हम सच्चाई स जुडा अही अउर परमेस्सर क सामने अपने दिल मँ सन्तोस कइ लेब। जिन कामन मँ हमार मन हमका दोसी ठहरावत ह काहेकि परमेस्सर हमरे मन स बड़ा अहइ अउर उ सब कछू जानत ह।

<sup>21</sup>जो पिआरे बन्धुयों, जदि बुरा काम करत समइ हमार मन हमका दोसी नाहीं ठहरावत तउ परमेस्सर क सामने हमका बिसवास बना रहत ह। <sup>22</sup>अउर जउन कछू हम ओसे मांगित ह, ओका पाइत ह। काहेकि हम ओकरे हुकुमन क अनुसार काम करत अही अउर ओनही काम करत अही जउन ओका अच्छी लागत ह। <sup>23</sup>ओकर इ हुकुम अहइ: हम सबे ओकरे पूत ईसू मसीह मँ बिसवास करी, जइसेन कि उ हमका पचे क हुकुम दिहे अहइ, कि हम एक दुसरे स पिरेम करी, <sup>24</sup>जउन मनई ओकरे आदेस क पालन करत ह, उ उही मँ बरकरार रहत ह अउर ओहमौ परमेस्सर क निवास रहत ह। इ तरह स, उ आतिमा क द्वारा जेका परमेस्सर हमका दिहे अहइ, हम जानितही कि हमरे अन्दर परमेस्सर रहत ह।

### झूठा उपदेस देय बालेन स बचा रहै चाहीं

**4** पिआरे बन्धुओ, दुनिया मँ तमाम झूठे नबी फैल ग अहइ। हर एक आतिमा क बिसवास न करइ चाहीं, पहले ओनका परखिके देख लेइ चाहीं कि, का उ परमेस्सर क अहीं? इ मइँ तोहसे इ बदे कहत अहीं। <sup>2</sup>परमेस्सर क आतिमा क तू इ तरह पहिचान सकत हया: जउन आतिमा इ मानत ह, "ईसू मसीह मनई क रूप धइके दुनिया मँ आइ अहइ," उ परमेस्सर कइँती स आइ अहइ। <sup>3</sup>अउर हर उ आतिमा जउन ईसू क नाहीं मानत, परमेस्सर कइँती स नाहीं आइ बाटइ। अइसी आतिमा मसीह क विरोधी अहइ, जेकरे बारे मँ सुने अहा कि उ आवत अहइ, मुला अब तउ उ इही दुनिया मँ अहइ।

<sup>4</sup>पिआरे बच्चों, तू पचे परमेस्सर क अहया। इही बदे तू मसीह क विरोधी क ऊपर जीत हासिल कइ लिहे अहा। काहेकि उ परमेस्सर जउन तोहरे अन्दर अहइ, दुनिया मँ रहइवाला सइतान स बड़ा अहइ। <sup>5</sup>मसीह क विरोध करइवाले मनइयन संसारी अहीं।

एह बरे उ पचे जउन कछू बोलत हीं, उहउ सब कछू दुनियादारी क चीज अहइ अउर दुनिया ओनकइ बात सुनत ह। <sup>6</sup>मुला हम पचे परमेस्सर क अहीं, तउ जउन मनई परमेस्सर क जानत ह, उ हमार सबन क सुनत ह। मुला जउन मनई परमेस्सर क नाहीं जानत, हमार नाहीं सुनत। इ तरह हम सच्ची आतिमा तथा झूठी आतिमा क पहिचान सकित ह।

कैन कैन अउर अबेल आदम अउर हव्वा क बेटवन रहेन। कैन अबेल स जरत रहा। तउ उ ओका मारि डाएसा।  
उत्पत्ति 4:1-16

### पिरेम परमेस्सर स मिलत ह

7पिआरे बन्धुओ, हमका सबका एक दूसरे स पिरेम करइ चाही। काहेकि पिरेम परमेस्सर स मिलत ह अउर जउन मनई पिरेम करत ह, उ परमेस्सर क सन्तान बन जात ह अउर परमेस्सर क जानत ह। 8जउन मनई पिरेम नाहीं करत परमेस्सर क नाहीं जान पावत, काहेकि परमेस्सर पिरेम अहइ। 9परमेस्सर आपन पिरेम इ तरह स देखावत ह: उ अपने एकलौते बेटवा क इ दुनिया मँ भेजेस जइसेन कि हम सब ओकरे द्वारा जिन्दगी पाइ सकी। 10सच्चा पिरेम एहमाँ नाहीं अहइ कि हम परमेस्सर स पिरेम करी, उ तउ एहमाँ अहइ कि एक अइसेन बलिदान क रूप मँ जउन हमरे पापन क धारण कइ लेत ह, उ अपने बेटवा क भेजेके हमरी कइँती आपन पिरेम देखाए अहइ।

11पिआरे बन्धुओ, जदि परमेस्सर इ तरह स हमरे ऊपर आपन पिरेम देखाएस तउ हमहूँ क एक दूसरे स पिरेम करइ चाही। 12परमेस्सर क कबहूँ कउनो नाहीं देखेस अहइ, मुला जदि हम एक दुसरे स पिरेम करित ह तउ परमेस्सर हमरे मँ निवास करत ह अउर हमरे सबन क भीतर ओकर पिरेम सम्पूर्ण होइ जात ह। 13इ तरह स हम जान सकित ह कि हम परमेस्सर मँ निवास करित ह अउर उ हमरे भीतर रहत ह। उ अपनी आतिमा क कछू भाग हमका दिहे अहइ। 14एका हम देखे अही अउर हम एकर साच्छी अही, परमपिता अपने बेटवा क दुनिया क बचाव करइ क वास्ते भेजे अहइ। 15जदि कउनो इ मानत लेत ह, "ईसू परमेस्सर क पूत अहइ" तउ परमेस्सर ओहमाँ रहइ लागत ह। अउर उ मनई परमेस्सर मँ रहत ह। 16इ जउ पिरेम परमेस्सर हमसे रखत ह, ओका हम जान गएँ अउर हमरे उपर बिसवास किहे अहइ, जउन पिरेम परमेस्सर हमरे बदे रखत ह।

परमेस्सर पिरेम अहइ अउर जउन मनई पिरेम मँ बना रहत ह, उ परमेस्सर मँ बना रहत ह अउर परमेस्सर ओहमाँ बना रहत ह। 17हमरे बावत पिरेम इही तरह स पूर्ण अहइ जइसेन कि निआव क दिन हमरे अन्दर बिसवास बना रहइ। हमारा इ बिसवास इ बदे बना रहत ह, काहेकि हम जउन जीवन जिअत अही, उ मसीह क जिन्दगी जइसेन अहइ। 18पिरेम मँ कउनो भय नाहीं रहत, हिआँ तलक कि भरपूर पिरेम सब डर भगाय देत ह। भय क ताल्लुक दंड स अहइ। इ बदे जेहमाँ भय अहइ, ओकरे पिरेम क पूर्णता नाहीं मिलत।

19हम पिरेम करित अही काहेकि पहले परमेस्सर हमसे पहिले पिरेम करे अहइ। 20जउ कउनो मन मनई कहत ह, "मई परमेस्सर क पिरेम करित हउँ।" अउर अपने भाई स नफरत करत हउँ, तउ उ झूठा अहइ। काहेकि सच मँ जदि उ अपने उ भाई स पिरेम नाहीं करत जेका कि उ देखे अहइ, तउ उ परमेस्सर स कइसे

पिरेम कइ सकत ह, जेका उ देखे नाहीं अहइ। 21इ आदेस मसीह हमका दिहे अहइ।

उ मनई जउन परमेस्सर क पिरेम करत ह, ओका अपने भाई स पिरेम करइ चाही।

### परमेस्सर क सन्तान क दुनिया प जीत होत ह

5 जउन मनई इ बिसवास करत ह कि ईसू मसीह अहइ, उ परमेस्सर क सन्तान बन जात ह अउर जदि कउनो परमपिता स पिरेम करी तउ ओकरी सन्तानी स पिरेम करी। 2इ तरह स जब हम परमेस्सर स पिरेम करित ह अउर ओकरे आदेस क पालन करित अही तउ हम जानि लेइत ह कि हम परमेस्सर क संतान स पिरेम करित अही। 3ओकरे आदेसन क पालन करत हम इ देखाइत ह कि हम परमेस्सर स पिरेम करित ह। ओकरे आदेस बहुत कड़ा नाहीं अहइ। 4काहेकि जउ कउनो परमेस्सर क सन्तान बन जात ह तउ उ दुनिया क जीत लेत ह। अउर दुनिया प जीत हासिल करवइवाला हमारा बिसवास अहइ। 5जउन इ बिसवास करत ह कि ईसू परमेस्सर क पूत अहइ, तउ उ दुनिया क जीत लेत ह।

### परमेस्सर अपने पूत क बावत कहब

6उ ईसू मसीह अहइ जउन हमरे पास पानी अउर लहू क साथ आवा-उ केवल पानी क साथे नाहीं, मुला पानी अउर लहू क साथ। अउर उ आतिमा अहइ जउन ओकर साच्छी देत ह, काहेकि आतिमा सत्य अहइ। 7साच्छी देइवाले तीन अहइँ। 8आतिमा, पानी अउर लहू अउर इ तीनउँ साच्छी एक दूसरे स मेल खात हीं, एक दूसरे स सहमत अहइँ। 9जउ हम मनई क दीन्ह साच्छी क मानित ह तउ परमेस्सर क दीन्ह साच्छी अउर मूल्यवान अहइ। परमेस्सर क दीन्ह साच्छी क सबसे बड़ा महत्व इ बात मँ अहइ कि उ अपने पूत क बावत साच्छी दिहे अहइ। 10जउन मनई परमेस्सर क पूत मँ बिसवास करत ह उ अपने अन्दर साच्छी क रखत ह। परमेस्सर जउन कहे अहइ, ओह प जउ बिसवास नाहीं करत, तउ उ मनई परमेस्सर क झूठा साबित करत ह। काहेकि उ परमेस्सर क अपने पूत क बावत दीन्ह साच्छी मँ बिसवास नाहीं किहेस। 11अउर उ साच्छी आटै: कि परमेस्सर हमका अनन्त जीवन देहे अहइ। अउर उ जीवन ओकरे पूत (ईसू) मँ मिलतह। 12जउन मनई ओहके पूत क धारण करतह, उ उही जीवन क धारण करतह। मुला जेकरे पास परमेस्सर क पूत नाहीं अहइ, ओकरे पास उ जीवनौ नाहीं अहइ।

### अब अनन्त जीवन हमारा अहइ

13परमेस्सर मँ बिसवास करइवालो, तोहका इ बातिन क मई इ बदे लिखत अहउँ जइसेन कि तू जानि ल्या कि अनन्त जीवन तोहरे पास अहइ। 14हमारा परमेस्सर मँ

इस बिसवास अहइ कि जदि हम ओकरी इच्छा क पालन करत ओसे पराथना करी तउ उ हमार पराथना सुनत ह, <sup>15</sup>अउर जब हम जानित ह कि उ हमार सुनत ह ओसे हम चाहे जउन माँगी-तउ हम इहौ जानित ही कि हम जउन कछू माँगित ही, उ हमार होइ जात ह।

<sup>16</sup>जदि कउनो देखत ह कि ओकर भाई कउनो अइसा पाप करत अहइ जेकर फल अनन्त मउत नाहीं अहइ, तउ ओका अपने भाई क बावत पराथना करइ चाहीं। परमेस्सर ओका जीवन देई। मई ओनके बरे जीवन क बात करत अही, जउन कि अइसे पाप में लगा अहइ जउन ओनका अनन्त मउत तक न पहुँचा। अइसउ पाप होत ह, जेकर फल मउत अहइ। मई तोहसे अइसे न पाप क बदे पराथना करइ बरे नाहीं कहत अहउँ। <sup>17</sup>सबइ बुरा काम पाप अहइ। मुला अइसा पाप भी होत

ह जउन अनन्त मउत क तरफ नाहीं लइ जात। <sup>18</sup>हम जानित ह कि जे केहू परमेस्सर क पूत बन गवा, उ पाप नाहीं करत। परमेस्सर क पूत ओकइ रच्छा करत ह। \* उ दुस्ट सइतान ओकर कछू बिगाड़ नाहीं सकत। <sup>19</sup>हम जानित अही कि हम परमेस्सर क अही। वइसेन इ पूरी दुनिया उ दुस्ट (सइतान) क वस मैं अहइ। <sup>20</sup>मुला हमका पता अहइ कि परमेस्सर क पूत आइ गवा अहइ अउर उ हमका अइसा ज्ञान दिहे अहइ जइसे कि हम उ परमेस्सर क जान लेई जउन सच्चाई अहइ। हम सबे उही मैं स्थित अही जउन सच्चाई अहइ, काहेकि हम ओकर पूत ईसू मसीह मैं स्थित अही। परमपिता सच्चा परमेस्सर अहइ अउर उ अनन्त जीवन भी अहइ।

<sup>21</sup>पिआरे बच्चो, अपने आप क झूठे देवता लोगन स दूर राखा।

---

परमेस्सर ... ह मुला रहत ह सबत क अरथ, “जउन परमेस्सर स पइदा भवा ओका उ बचाए रखत ह।” या “आपने आप क बचाए राखत ह।”

# License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center

Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center

All rights reserved.

## These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online ad space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at [distribution@wbtc.com](mailto:distribution@wbtc.com).

World Bible Translation Center

P.O. Box 820648

Fort Worth, Texas 76182, USA

Telephone: 1-817-595-1664

Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE

E-mail: [info@wbtc.com](mailto:info@wbtc.com)

**WBTC's web site** – World Bible Translation Center's web site: <http://www.wbtc.org>

**Order online** – To order a copy of our texts online, go to: <http://www.wbtc.org>

**Current license agreement** – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: <http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm>

**Trouble viewing this file** – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

**Viewing Chinese or Korean PDFs** – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: <http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html>